



STL GLOBAL LIMITED

Plot No. 207-208, Sector-58, Faridabad Haryana (INDIA)
Tel : 0129-4275900 - 4275930, Fax : 0129-4275999
E-mail : info@stl-global.com Website : www.stl-global.com
CIN : L51909DL1997PLC088667

Date: 15th November, 2021

From: **STL Global Limited**
Scrip Code: **532730**

To
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai 400 001, MH

Sub: **Intimation of Newspaper Publication of Un-Audited Financial Results for the quarter & half-year ended 30th September, 2021**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of newspaper clippings of the advertisement published on the above-mentioned subject matter, in the following newspaper:

1. Mint – English in all Edition on 15th November, 2021
2. Veer Arjun – Hindi in Delhi Edition on 14th November, 2021

Kindly take the above information on your record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours truly,
For **STL GLOBAL LIMITED**



Manil Kr. Nagar
Company Secretary

Encl: As above

हिन्दी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है: शाह

भारत में कोरोना के 11,850 नए मामले सामने आए

वीर अर्जुन संवाददाता
वाराणसी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हिन्दी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है और इनके बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है।

वाराणसी के दिन दयाल हस्तकला संकुल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शनिवार को केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास तभी संभव है जब राजभाषा देशभर के अंदर मजबूत हो। शाह ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव हमारे लिये संकल्प का वर्ष है। इसी वर्ष में 130 करोड़ भारतीयों को तय करना है कि जब आजादी के 100 साल होंगे तो भारत कैसा होगा, दुनिया में भारत का स्थान कहाँ होगा? चाहे शिक्षा की बात हो, उद्योग, बुनियाद, आर्थिक उन्नति, उत्पादन बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा। इसका संकल्प लेने का यह वर्ष है और 75 वें साल से 100



वाराणसी के दिन दयाल हस्तकला संकुल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह।

साल तक का काल अमृत काल रहेगा और यह अमृत काल हमारे सभी लक्ष्यों की सिद्धि का माध्यम होगा। उन्होंने कहा, हम सब हिन्दी प्रेमियों के लिये भी यह संकल्प का वर्ष होना चाहिये कि आजादी के 100 साल जब हों तो इस देश में राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषा का दबदबा इतना हो कि किसी भी विदेशी भाषा का सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़े। उन्होंने कहा, यह काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था।

आजादी के आंदोलन, जिसे महात्मा गांधी ने लोक आंदोलन में परिवर्तित किया, के तीन स्तंभ थे स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज तो मिल गया स्वदेशी भी पीछे छूट गया और स्वभाषा भी पीछे छूट गयी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मेक इन इंडिया और अब स्वदेशी की बात करके स्वदेशी को हमारा लक्ष्य बनाने की दिशा में काम किया है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर देश भर के लोगों को

बताना चाहता हूँ कि एक और लक्ष्य छूट गया था स्वभाषा का, उसको एक बार फिर से हम स्मरण करें और वह हमारे जीवन का हिस्सा बने। शाह ने कहा, हिन्दी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं है। हिन्दी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है और सखियों के बीच कभी अंतर्विरोध नहीं होता है। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा और स्थानीय भाषा

लेह में रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे राजनाथ

नई दिल्ली (वाता)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ 1962 की लड़ाई में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना के रणबाहुकुरों के सम्मान में बनाए गए युद्ध स्मारक का अगले सप्ताह उद्घाटन करेंगे। सेना के एक अधिकारी के अनुसार 18 नवंबर को रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई की 59 वीं वर्षगांठ है और श्री सिंह इस दिन के महत्व को याद करते हुए इस स्मारक का उद्घाटन करेंगे। सेना के अनुसार रेजांग ला में पहले बना स्मारक छोटा था और अब इसका विस्तार कर इसे बड़ा तथा नया रूप दिया गया है। नवनिर्मित स्मारक में जून 2020 में चीनी सैनिकों के साथ गलबारा घाटी में हुई झड़प में शहीद हुए सेना के 20 जांबाज सैनिकों के नाम भी शामिल किए गए हैं। रक्षा मंत्री इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति का भी जायजा लेंगे और शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ चर्चा भी करेंगे।

उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी भी रहेंगे। चीन के साथ 1962 में लड़ाई के दौरान सेना की 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के रणबाहुकुरों रेजांग ला में चीनी सेना के साथ डटकर लोहा लिया था। इस मोदी 28 को करेंगे 'मन की बात'

नई दिल्ली, (वाता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह 28 नवंबर को होने वाले 'मन की बात' के संभावित मुद्दों और विषयों पर देश के लोगों को सुनना चाहते हैं। श्री मोदी ने शनिवार को टवीट किया, 'मैं इस महीने की 28 तारीख को होने वाले 'मन की बात' के संभावित मुद्दों और विषयों पर आपको सुनना चाहता हूँ। माईगव, नमो एप पर योगदान दें या अपना संदेश रिकॉर्ड करें।'

प्रियंका बुलंदशहर में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन को करेंगी संबोधित

लखनऊ, (बीओ)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 15 नवंबर को बुलंदशहर और 15 नवंबर को मुरादाबाद में कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन-लक्ष्य 2022 को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में न सिर्फ आम जनता को मुद्दों को पुर्जोर तरीके से उठा कर सरकार को जवाबदेही तय की बल्कि संगठन को मजबूत करने का काम भी बड़े स्तर पर किया है। लल्लू ने कहा कि इसी कड़ी में महासचिव पूरे प्रदेश में आयोजित होने जा रहे कांग्रेस प्रतिज्ञा सम्मेलन-लक्ष्य 2022 में संगठन के पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगी। पहले पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन बुलंदशहर में 14 नवंबर को किया जा रहा है, वहां आगरा, अलीगढ़, मेरठ मंडल के 14 जिलों से पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।

लड़ाई में सेना के 100 से भी अधिक जवान शहीद हुए थे और उनका नेतृत्व कर रहे मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत वीरता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

उत्तर रेलवे			
ई-निविदा सूचना			
भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/समन्वय द्वारा निम्नलिखित ई-टेंडर संख्या जिनके बन्ध होने की तिथि व समय प्रत्येक सामने अंकित है। जो उसी दिन 16:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निम्नलिखित ई-टेंडर संख्या के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। ई-टेंडर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।			
टेंडर संख्या	130-DRM-MB-21-22 Date :- 12.11.2021	131-DRM-MB-21-22 Date :- 12.11.2021	132-DRM-MB-21-22 Date :- 12.11.2021
कार्य का नाम	सहायक मंडल अभियन्ता/नजीबाबाद के अधीन नजीबाबाद स्टेशन पर जलापूर्ति स्थापना एवं पाइप लाइन की भारी मरम्मत हेतु कार्य	सहायक मंडल अभियन्ता/नजीबाबाद के अधीन बरिष्ठ अनुगम अभियन्ता/रेलपथ/कांड के अनुगम में ट्रेक रखरखाव के संबंध में विभिन्न रेलपथ कार्य हेतु। कार्य	सहायक मंडल अभियन्ता/नजीबाबाद के तहत विजयी स्टेशन के परिसंचारी क्षेत्र में रेलवे फाटक संख्या-59 से गुजरने वाले भारी मरम्मत हेतु। कार्य
निविदा प्रकार	कार्य	कार्य	कार्य
टेंडर बिलोसिंग दिनांक	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021
टेंडर बिलोसिंग समय	16:00 hrs	16:00 hrs	16:00 hrs
अनुमानित लागत	53,97,972.30	55,89,404.61	68,76,127.65
घरोहर राशि	Nil	Nil	Nil
टेंडर फार्म की लागत	Nil	Nil	Nil
कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 months	07 months	01 months
बिडिंग आरंभ तिथि	15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021
टेंडर नं. DEN-IV-DRM-MB-21-22 दिनांक 12.11.2021	2628/2021		

ग्राहकों की सेवा में सुखान के साथ

RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIES INDIA LIMITED							
Registered Office: 14, Roj-Ka-Moo Industrial Area, Sohna, Haryana-122103							
CIN : L74210HR1984PLC032293 www.rasandik.com							
Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2021							
Sl. No.	Particulars	Three Months Ended			Six Months Ended		Year Ended
		30.09.2021 Unaudited	30.06.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	30.09.2021 Unaudited	30.09.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited
1	Total Income	5,257.87 (6.48)	4,337.92 (158.29)	3,363.25 (221.39)	9,595.79 (163.08)	4,238.15 (637.87)	13,927.78 (577.28)
2	Profit / (Loss) before tax	5,257.87 (6.48)	4,337.92 (158.29)	3,363.25 (221.39)	9,595.79 (163.08)	4,238.15 (637.87)	13,927.78 (577.28)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(4.79)	(158.29)	(221.39)	(163.08)	(637.87)	(569.31)
4	Total Comprehensive Income for the period (net of tax) (OCI)	(4.79)	(158.29)	(221.39)	(163.08)	(637.87)	(569.31)
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	597.50	597.50	597.50	597.50	597.50	597.50
6	Other Equity	-	-	-	-	-	9,235.78
7	Basic and Diluted Earnings Per Share for the period (Rs.)	(0.08)	(2.65)	(3.71)	(2.73)	(10.68)	(9.66)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the Investor Section of our website www.rasandik.com and under Corporate Section of BSE Limited at www.bseindia.com.
2. The above Unaudited Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th November, 2021

For and on behalf of the Board of Directors
Rasandik Engineering Industries India Limited
Sd/-
Rajiv Kapoor
Chairman & Managing Director
(DIN:00054659)

Place: New Delhi
Date : 13-November-2021

कार्यालय नगर पालिका परिषद चांदपुर (बिजनौर) निविदा सूचना

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राकलन धनराशि	घरोहर राशि	टेंडर फीस जीएसटी सहित	कार्य अवधि
1	सफाई कर्मचारियों के लिए ठण्ड व गर्म बर्दी को आपूर्ति का कार्य।	457200.00	457200.00	150+500+27=677	तीन माह
2	नगर क्षेत्र में विभिन्न 200 स्थानों पर नगर पालिका द्वारा लगाए गए बूझों की सुरक्षा हेतु ट्री गाई लगाने का कार्य।	389100.00	389100.00	150+500+27=677	तीन माह
3	मी. सराय रफी (फौजा बस्ती) बाई नं. 13 में आयशा मखिद वाली गली में स्थापित विद्युत पोलो पर विद्युत एवीसी केबिल डालने का कार्य।	350548.00	35055.00	150+500+27=677	तीन माह
4	मी. सराय रफी (फौजा बस्ती) बाई नं. 13 में अरुवकर मखिद वाली गली में स्थापित विद्युत पोलो पर विद्युत एवीसी केबिल डालने का कार्य।	327318.00	32732.00	150+500+27=677	तीन माह
5	मी. भूपती सराय बाई नं. 2 (लमार्हपुर) में विद्युत पोल सहित एवीसी केबिल डालने का कार्य।	252013.00	25201.00	150+500+27=677	तीन माह
6	मी. सराय रफी बाई नं. 9 में (तेलौपुरा) सेंट स्टीफन स्कूल के पास विद्युत 48874.00	48874.00	48874.00	150+500+27=677	तीन माह
7	मी. पतिव्याडा बाई नं. 10 चक्रश्री पथ के पास विद्युत पोल सहित एवीसी केबिल डालने का कार्य।	491604.00	49160.00	150+500+27=677	तीन माह
8	श्रीदत्त गैल गैलोजन के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद चांदपुर में खसरा संख्या 1086 स्थित बास्टा रोड पर पार्क में ओपन स्कॉर्ड जिम का निर्माण कार्य।	361038.00	36103.00	150+500+27=677	तीन माह

हस्ताक्षर
अवर अभियन्ता (सिविल)
नगर पालिका परिषद चांदपुर, बिजनौर

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

वीर अर्जुन
वर्गीकृत विज्ञापन
Change of Name
I, Beenu Gupta W/o Manish Gupta R/o 1092, Gali Raja Ugger Sen, Sita Ram Bazar, Delhi-110006 I have changed my name from Bindu Goyal to Beenu Gupta in the future.
C-25412

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित कर दिया है। अगर भविष्य में दिनेश कुमार से कोई व्यक्ति लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तारा सिंह, अधिवक्ता, सीट नं. 142, पी.एस. राठी ब्लॉक, नेट नं. 2, नील हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054.

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुंबिकल राम कुमार पुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी म. नं. सी-718, बुनकर कॉलोनी, अयोध क्वार्टर फेज-4, दिल्ली-110052 ने अपने पुत्र दिनेश कुमार को उसके लाल आचरण व गलत समझ के कारण अपने समस्त चल व अचल सम्पत्ति से वंचित



STL GLOBAL LIMITED

CIN: L51909DL1997PLC088667

Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1, First Floor,
Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065

Website: www.stl-global.com, Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Corresponding
	(30.09.2021)	(30.09.2021)	Quarter ended
	Unaudited	Unaudited	in the previous year (30.09.2020)
			Unaudited
Total Income from Operations (net)	3,170.57	5,693.19	1,690.28
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	54.39	152.86	-8.50
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	54.39	152.86	-8.50
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	31.89	130.36	-8.50
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	23.76	122.52	-8.50
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 10/- each)	2,722.18	2,722.18	2,722.18
Reserves(excluding Revaluation Reserve)as shown in the Balance Sheet of previous year	-	-	-
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)			
Basic:	0.09	0.45	-0.03
Diluted:	0.09	0.45	-0.03

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2021 filed with the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The full formats of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2021 are available on the Company's Website at www.stl-global.com and on the Stock Exchanges websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com respectively.
- The Company has analyzed all the relevant parameters associated with the risk due to COVID-19 and is of the opinion that it will not have any material impact on the business and going concern assumptions.
- There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and half year ended 30th September, 2021.

For and on behalf of the Board of Directors of

STL Global Limited

Sd/-

Sh. Sanjiv Kumar Aggarwal

(Whole Time Director)

(CIN: 06227251)

Place : Faridabad

Date : 13th November, 2021

RELIABLE VENTURES INDIA LIMITED

CIN: 2354MP1992PLC007295

REG. OFFICE : A-6, RELIABLE HOUSE, KOH-E-FIZA, BHOPAL, MP-462001

Tel.No.: 0755-492222, Email : reliablegroup@gmail.com

Website: noorussabahpalace.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30-09-2021

(Rs. In Lacs)

S. No.	PARTICULARS	Quarter ended	Six Months ended	Quarter ended
		30th Sept., 2021	30th Sept., 2021	30th Sept., 2020
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Total Income from Operations	462.11	665.49	142.17
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax Exceptional and/or Extraordinary Items)	98.78	49.98	(91.47)
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	98.78	49.98	(91.47)
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	98.78	49.98	(91.47)
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	100.28	64.98	(167.03)
6	Equity Share Capital	1101.29	1,101.29	1,101.29
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	-
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	0.91	0.59	-0.68
	2. Diluted :	0.91	0.59	-0.68

Notes :

- The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 13th Nov, 2021.
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting practices and policies to the extent applicable.
- The company has only one business and geographical segment viz. hotel operation in India, hence no further disclosures are required to be made as per Indian Accounting Standard-108 on "Operational Segments".
- The above is an extract of detailed unaudited financial results filed with the Mumbai Stock Exchange Ltd. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the results is available on the Website of BSE "www.bseindia.com" and company Website "www.noorussabahpalace.com".

For Reliable Ventures India Limited

Sd/-

(SIKANDAR HAFIZ KHAN)

Chairman & Mg. Director

Bhopal : 13-11-2021